



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 08-06-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-06-08 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-06-09	2021-06-10	2021-06-11	2021-06-12	2021-06-13
वर्षा (मिमी)	2.0	2.0	8.0	30.0	60.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	27.0	25.0	24.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	16.0	15.0	14.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	64	62	78	88	92
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	37	28	36	54	62
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	120	130	130	130
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	3	4	5

मौसम सारांश / चेतावनी:

8 व 9 जून को कहीं-कहीं बूदा-बांदी, तदपश्चात् 10 से 12 जून को हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है। हवा के 6.0-8.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.0 से 27.0 व 13.0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेतावनी: 11 व 12 जून को, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा 12 जून को कहीं-कहीं भारी वर्षा की भी सम्भावना है। ईआरएफएस के अनुसार, 13 से 19 जून के दौरान राज्य में वर्षा एवम् न्यूनतम तापमान सामान्य, व अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर व इसके गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा,

मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.2-0.4 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में अत्यधिक नमी की स्थिति दर्शाता है। आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए रसायनों का छिड़काव न करें व बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

लघु संदेश सलाहकार:

8 व 9 जून को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी, तद्पश्चात् 10 से 12 जून को हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है। 11 व 12 जून को, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा 12 जून को कहीं-कहीं भारी वर्षा की चेतावनी है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	पर्वतीय क्षेत्रों में, गहत कुल्थी की बुवाई जून के प्रथम पखवाड़े में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करे।
कंगनी	निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, काकुन/कंगनी/कोणी की बुवाई पूर्ण करें।
रागी	निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मंडुवा/रागी की बुवाई इस माह के प्रथम पखवाड़े में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	पर्वतीय क्षेत्रों में लौकी की बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने हेतु टिटनेस, इंट्रोटाक्सिमिया तथा गलाघाँटू के टीके लगवायें।